



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2011 (ज्येष्ठ 21, 1933)

No. 24]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2011 (JYAISTHA 21, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 24 मई 2011

सं. ए. 22017/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त निदेशक श्री एस.बी. अय्यर को दिनांक 5 मई, 2011 (अपराह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

2. श्री एस.बी. अय्यर की नियुक्ति प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

पी.के. बाली, अवर सचिव

दिनांक 27 मई 2011

सं. ए. 22012/004/2010-पीएमई--राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग में कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड 'सी' श्री वी.के. शर्मा को दिनांक 26 अप्रैल, 2011 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निजी सचिव नियुक्त करती है।

2. इसे इस कार्यालय के दिनांक 14.05.2011 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

पी. के. बाली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2011

सं. आरएस./3/5/2011/41-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कनिष्ठ संसदीय भाषान्तरकार के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 23 मई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संसदीय भाषान्तरकार के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है:--

1. श्री अनुराग बाजपेयी
2. श्री सौरभ शेखर

3. श्री राहुल नरेश जोशी

4. कृ. वियतनाम वी.

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./3/3/2011/42-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत कनिष्ठ संसदीय वृत्त-लेखक श्री दया शंकर को 3 मई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संसदीय वृत्त-लेखक के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./3/8/2011/43-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक (सुरक्षा) श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम को 24 मई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./3/8/(1)/2011/44-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ सुरक्षा सहायक डॉ. राम वकील को 24 मई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस/3/8(1)/2011/45-कार्मिक--श्री कृष्ण बिहारी मिश्रा, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना सं. आरएस/3/8/1/2010/30-कार्मिक दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के तहत तदर्थ आधार पर सुरक्षा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, अब 4 मई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 26 मई 2011

सं. आरएस/3/6/1/2011/46-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत मुद्रण अधिकारी, श्रीमती संतोष नासा

को 26 मई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (मुद्रण और प्रकाशन) के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

मंत्रीमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2011

सं. ए-19015/02/1987-प्रशा. I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 मई, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010-सीएस. I(डी) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) की वर्ष 2010 की चुनिंदा सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी, श्री एम. दिनाकरन, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर मंत्रीमंडल सचिव के स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्यरत है, का नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें 09 मई, 2011 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर मंत्रीमंडल सचिवालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मई 2011

सं. ए-19011/3/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन को 19 मई, 2011 के पूर्वाह्न से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एस.डी.) के रिक्त पद के स्थान पर भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन में दो वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं। 31 अक्टूबर, 2011 को उनकी सेवानिवृत्ति के समय तक श्री मेनन की प्रारंभिक नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति आधार पर मानी जायेगी और शेष अवधि की नियुक्ति पुनर्नियोजन संविदा आधार पर मानी जायेगी।

एम.एस.एस. नायर, उप सचिव

दिनांक 30 मई 2011

सं. ए-19011/2/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, सुश्री विजय लता रेड्डी, भारतीय विदेश सेवा (75) को दिनांक 21 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति करते हैं। यह नियुक्ति प्रारंभ में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30.04.2011 तक प्रतिनियुक्ति आधार पर मानी जायेगी और उसके बाद संविदा आधार पर पुनर्नियोजन पर मानी जायेगी।

एम.एस.एस. नायर, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2011

सं. एफ-6(2159)/2011-प्रशा. I--आर्थिक कार्य विभाग की फाईल सं. 13016/3/2011-आईईएस से जारी दिनांक 18.04.2011 के आदेश सं. टी-11/2011 के तहत श्री एन. श्रीनिवास राव, एनएफएसजी अधिकारी, आईईएस ने दिनांक 04.05.2011 पूर्वाह्न से वेतन वर्ग-4 अर्थात् रु. 37,000--67,000/- + 8,700/- ग्रेड वेतन में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 31 मई 2011

सं. ए-12025/21/2000-प्रशासन-I--सक्षम प्राधिकारी ने श्री एम. सत्यमूर्ति की योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (कोयला) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 07.09.2008 से 30.04.2009 तक बढ़ाने के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है। श्री सत्यमूर्ति को योजना आयोग के दिनांक 30.04.2009 के समसंख्यक अधिसूचना के तहत ही उनके मूल संगठन, डी.जी.एम.एस., धनबाद को प्रत्यावर्तित किया जा चुका है।

जी. राजीव, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मई 2011

सं. ए-32013/02/2011-प्रशा.-3--इस आयोग के दिनांक 10 मई, 2011 के समसंख्यक अधिसूचना का आंशिक संशोधन करते हुए पैरा 1 के क्रम संख्या 4 में उल्लेखित श्रीमती माधुरी एन. शेन्दे की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तारीख 05.04.2011 के स्थान पर 05.05.2011 पढ़ा जाए।

2. पूर्वोक्त अधिसूचना में निहित अन्य मदें यथावत् रहेंगी।

पी. सी. भारद्वाज, अवर सचिव

सं. ए-32013/02/2011-प्रशा.-3--राष्ट्रपति जी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का.ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II के अनुसरण में तथा संबंधित संवर्ग एककों से उनके कार्यमुक्त हो जाने के उपरान्त, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा समूह के उनके नाम के सामने दर्शाए गए संवर्ग एककों के निम्नलिखित निजी सचिवों को वेतन बैंड पी.बी.-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में योजना आयोग में प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से दिनांक 30.09.2011 तक अथवा इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :-

क्र. अधिकारियों सं. के नाम	श्रेणी	निजी सचिव ग्रेड में चयन सूची वर्ष	संवर्ग एकक जहां निजी सचिव ग्रेड में नियमित रूप से कार्यरत थे	योजना आयोग में प्रधान निजी सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि
-------------------------------	--------	---	--	---

श्री/श्रीमति/कुमारी

1. शांता देवी	अ.जा.	2003	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	06.05.2011 (पूर्वाह्न)
2. बी. अरुमुचन	समान्य	1993	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11.05.2011 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव ग्रेड पर यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें इसी ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

पी. सी. भारद्वाज, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मई 2011

सं. ए-19011/46/2011-यू.आई.डी.ए.आई.--वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के दिनांक 25.05.2011 के पत्र संख्या 1025/1099/2011/ई-चार द्वारा सूचित किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में श्री उपेन्द्र शर्मा ने दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड + 6,600/- रुपये के वेतन ग्रेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिनांक 30.05.2011 की पूर्वाह्न से उप निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप निदेशक

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 अप्रैल 2011

सं. के-11019/3/2011-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री रंजन गोगोई के अवकाश पर चले जाने के कारण, उनकी अनुपस्थिति के दौरान, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री आदर्श कुमार गोयल को दिनांक 02.05.2011 से 29.05.2011 तक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 2 मई 2011

सं. के-13014/02/2009-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री गिरीष कृष्ण गोडबोले को, उस तारीख जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए, मुम्बई उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 6 मई 2011

सं. के-13016/01/2010-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन और (2) श्री राधेश्याम शर्मा को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-13017/02/2011-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री अजित भरिहोक, (ii) श्री विनय कुमार जैन, (iii) श्रीमती इन्दरमीत कौर कोछड़ और (iv) श्री अनिल कुमार पाठक को उसी वरीयता क्रम में, दिनांक 14 मई, 2011 से दो वर्ष की अवधि के लिए, सिवाय श्री अजित भरिहोक के, जिनका कार्यकाल 16 अक्टूबर, 2011, अर्थात् उनकी सेवा-निवृत्ति की तारीख को समाप्त हो रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 मई 2011

सं. के-11019/3/2011-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री भगवती प्रसाद के सेवा-निवृत्ति हो जाने के परिणामस्वरूप, झारखण्ड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री प्रकाश चन्द्र टटिया को दिनांक 13 मई, 2011 से झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 16 मई 2011

सं. के-13024/04/2010-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पेरिया वीड ख़ादिर मीरान बरकत अली को, दिनांक 21 मई, 2011

से 05 मई, 2012 तक की अवधि के लिए, केरल उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मई 2011

सं. I-18011/13/2010-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं:--

क्र. परिवीक्षाधीन भा.पु.से. सं. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तिथि
1. श्री अभय सिंह, आई.पी.एस. (मध्य प्रदेश : 2002)	02.09.2004
2. श्री हरिनारायणचारी मिश्र, आई.पी.एस. (मध्य प्रदेश : 2003)	29.12.2005

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

सं. I-18011/9/2010-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं:--

क्र. परिवीक्षाधीन भा.पु.से. सं. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तिथि
1. श्री संगानकल वीरेश प्रभु, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र : 2005)	22.08.2007
2. श्री मनोज कुमार शर्मा, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र : 2005)	22.08.2007
3. मो. सुवेज़ हक, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र : 2005)	22.08.2007
4. सुश्री निकम शारदा वसंत, आई.पी.एस. (महाराष्ट्र : 2005)	22.08.2007

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2011

सं. ए-32013/1/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, सुश्री अमरप्रीत दुग्गल, भारतीय डाक सेवा (1999) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में

12 मई, 2011 के अपराह्न से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड-3 (पी.बी.-3) रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/- (ग्रेड वेतन) में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जयन्ती श्रीराम, अवर सचिव

दिनांक 25 मई 2011

सं. ए-32014/1/2011-प्रशा.-I--वर्ष 2010 की चयन सूची (भाग) में उनका नाम शामिल किए जाने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/12/2010-के.से.-II(क) दिनांक 25 मार्च, 2011 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के नियमित प्रधान निजी सचिव श्री जवाहर पेशवानी को 25 मार्च, 2011 से पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- जमा रु. 7,600/- (जीपी) के वेतन ढाँचे में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

जयन्ती श्रीराम, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2011-प्रशा.-I--वर्ष 2010 की चयन सूची (भाग) में उनका नाम शामिल किए जाने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/12/2010-के.से.-II(क) दिनांक 14 फरवरी, 2011 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकों सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति के लिए नामांकन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति शहरी विकास मंत्रालय के नियमित प्रधान निजी सचिव श्री वेद अमृत मनचन्दा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में 25 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न) से पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- जमा रु. 7,600/- (जीपी) के वेतन ढाँचे में नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

जयन्ती श्रीराम, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड क और ख (संविलयित) को दिनांक 30.03.2011 (पूर्वाह्न) से 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा के.से.प्रभाग के का. ज्ञा. सं. 3/1/2011-के.से.-II(क) दिनांक 29 मार्च, 2011 के अनुसार, पदों का नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक इस विभाग में पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- में पूर्णतः तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त करती हैं :--

1. श्रीमती बीना खन्ना
2. श्री एस. के. सचदेव

जयन्ती श्रीराम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2011

सं. 13017/5/2011-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागालैण्ड और उत्तर प्रदेश सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री अभिषेक प्रकाश, भा.प्र.से. (नागालैण्ड : 06) का सुश्री अदिति सिंह, भा.प्र.से., (उ.प्र. : 09) के साथ विवाह होने के आधार पर नागालैण्ड संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण करती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 13017/12/2011-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सिक्किम, हरियाणा और पंजाब सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री ईशा, भा.प्र.से. (सिक्किम : 09) और डॉ. सुमित जारंगल, भा.प्र.से., (हरियाणा : 09) का विवाह होने के आधार पर उनके संबंधित संवर्गों से पंजाब संवर्ग में स्थानांतरण करती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2011

सं. 6/पीए-II/5/2011--राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2006-2007 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से भारतीय विदेश सेवा में उनका स्थायीकरण करती हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	बैच	वर्तमान तैनाती	स्थायीकरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	अभिषेक शुक्ला	2006	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, बीजिंग	04 नवम्बर, 2010
2.	प्रसन्ना श्रीवास्तव	2006	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, बीजिंग	04 नवम्बर, 2010
3.	बानु प्रकाश (सुश्री)	2006	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, सियोल	04 नवम्बर, 2010
4.	सतवांत खानालिया (सुश्री)	2007	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, पेरिस	04 नवम्बर, 2010
5.	मनहारसिंह एल. यादव	2007	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, ब्रुसेल्स	04 नवम्बर, 2010
6.	सुनीत मेहता	2007	अ.स. (जीए), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	04 नवम्बर, 2010

1	2	3	4	5
7.	पौलोमी त्रिपथी (सुश्री)	2007	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, मेडरिड	04 नवम्बर, 2010
8.	अमित ए. शुक्ला	2007	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, ब्रासीलिया	04 नवम्बर, 2010
9.	शत्रुघ्न सिन्हा	2007	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, बर्लिन	04 नवम्बर, 2010
10.	मयंक सिंह	2007	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, मास्को	04 नवम्बर, 2010
11.	टी. एंजेलान प्रेमलता (सुश्री)	2007	अ.स. (एएमएस), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	04 नवम्बर, 2010
12.	नंदकुमार ए. (डॉ.)	2007	टीएस (एलटी), भारत का राजदूतावास, तेहरान	04 नवम्बर, 2010
13.	नीतू मेहरादा भगोटिया (सुश्री)	2007	मुख्यालय में अवर सचिव	04 नवम्बर, 2010

2. भारतीय विदेश सेवा में इन अधिकारियों के स्थायीकरण के पश्चात उन्हें उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से उनके संबंधित कार्यालयों में इस सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में अवर सचिव के रूप में पदोन्नति दी जाती है।

कार्तिक पाण्डे, अवर सचिव

दिनांक 29 मार्च 2011

सं. 7/पीए-II/2011--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा, 2006 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा में, वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	बैच/ नियुक्ति का वर्ष	वर्तमान नियुक्ति	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति
1	2	3	4	5
सर्व/श्री				
1.	नायर, अर्चना (सुश्री)	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, मैक्सिको सिटी	01 जुलाई, 2010
2.	रघुराम, एस.	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, रबात	01 जुलाई, 2010
3.	शर्मा, के. एम. प्रफुल्लचंद्र	2006	अवर सचिव (एसएल), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	01 जुलाई, 2010

1	2	3	4	5
4.	रतीश, रोहित	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय उच्चायोग, पोर्ट लुइस	01 जुलाई, 2010
5.	शुक्ला, अभिषेक	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, बीजिंग	01 जुलाई, 2010
6.	एस. गीता उडका (सुश्री)	2006	प्रधान कौंसुल, भारत का प्रधान कौंसलावास, क्लाडिवोस्टक	01 जुलाई, 2010
7.	बिनय जार्ज	2006	कौंसुल, भारत का प्रधान कौंसलावास, म्युनिख	01 जुलाई, 2010
8.	राजपाल हितेश जोगेन्द्रलाल	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, पनामा	01 जुलाई, 2010
9.	प्रसन्ना श्रीवास्तव	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, बीजिंग	01 जुलाई, 2010
10.	अमरनाथ ए.	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, बीजिंग	01 जुलाई, 2010
11.	बिजय सेल्वाराज	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, काहिरा	01 जुलाई, 2010
12.	बानु प्रकाश	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, सिओल	01 जुलाई, 2010
13.	एम. सुरेश कुमार	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, त्रिपोली	01 जुलाई, 2010
14.	निहारिका सिंह	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, येक्यो	01 जुलाई, 2010
15.	सुभाष प्रसाद गुप्ता	2006	कौंसुल, भारत का प्रधान कौंसलावास, इस्ताम्बुल	01 जुलाई, 2010
16.	जनेश	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, कीव	01 जुलाई, 2010
17.	भारत कुमार कुथाती	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, दमिश्क	01 जुलाई, 2010
18.	मदन मोहन सेठी	2006	प्रधान कौंसुल, भारत का प्रधान कौंसलावास, मंडाले	01 जुलाई, 2010
19.	राजेश उडक	2006	कौंसुल, भारत का प्रधान कौंसलावास, क्लाडिवोस्टक	01 जुलाई, 2010
20.	अभितीज चक्रवर्ती	2006	द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, लुआण्डा	01 जुलाई, 2010

कार्तिक पांडे, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2011

सं. 38 : (फा. सं. ए-19012/07/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री गौरव कनौजिया, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 98021) को दिनांक 29.04.2011 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2011

सं. 2011 का 10 : (फा. सं. ए-12015/11/2011-प्रशा.-I-क)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II और व्यय विभाग, (सी ए एस) के दिनांक 02 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव श्री विजय तकयार को दिनांक 06.04.2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री विजय तकयार की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या उस पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

सं. 2011 का 11 : (फा. सं. ए-19013/13/2011-प्रशा.-I-क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II और व्यय विभाग, (सी ए एस) के दिनांक 02 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव श्री रमन पाठक को दिनांक 18.04.2011 (अपराह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री रमण पाठक की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल

तक बने रहने या उस पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रधान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

सं. 2011 का 12 : (फा. सं. ए-19013/10/2011-प्रशा.-I-क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II और व्यय विभाग, (सी ए एस) के दिनांक 02 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की नियमित निजी सचिव सुश्री कमल रानी सोनी को दिनांक 05.04.2011 (अपराह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर सुश्री कमल रानी सोनी की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या उस पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

सं. 2011 का 13 : (फा. सं. ए-12015/12/2011-प्रशा.-I-क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II और व्यय विभाग, (सी ए एस) के दिनांक 02 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव श्री विक्रम नायर को दिनांक 18.04.2011 (अपराह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री विक्रम नायर की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या उस पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

सं. 2011 का 14 : (फा. सं. ए-32014/04/2009-प्रशा.-I-क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों (नि.स.) को दिनांक 04 मई, 2011 से 30.09.2011 तक अथवा

नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	विभाग जहां कार्यरत हैं	आबंटित विभाग का नाम
	श्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	जे. डेनियल गोडफ्रे	राजस्व	राजस्व
2.	एन. के. भारद्वाज	राजस्व	राजस्व

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

दिनांक 13 मई 2011

सं. 2011 का 16 : (फा. सं. ए-19013/15/2011-प्रशा.-I-क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II और व्यय विभाग, (सी ए एस) के दिनांक 06 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव श्री राजेन्द्र सिंह नेगी को दिनांक 27.04.2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री राजेन्द्र सिंह नेगी की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या उस पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

सं. 2011 का 17 : (फा. सं. ए-19013/16/2011-प्रशा.-I-क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II और व्यय विभाग, (सी ए एस) के दिनांक 06 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव सुश्री गीता राणा को दिनांक 27.04.2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर सुश्री गीता राणा की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या उस पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

सं. 2011 का 18 : (फा. सं. ए-19013/16/2011-प्रशा.-I-क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II और व्यय विभाग, (सी ए एस) के दिनांक 06 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की नियमित निजी सचिव सुश्री विमला रानी को दिनांक 05.05.2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर सुश्री विमला रानी की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या उस पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

सं. 2011 का 19 : (फा. सं. ए-19013/17/2011-प्रशा.-I-क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II और व्यय विभाग, (सी ए एस) के दिनांक 06 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव सुश्री मीनाश्री गुप्ता को दिनांक 27.04.2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर सुश्री मीनाश्री गुप्ता की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या उस पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

दिनांक 19 मई 2011

सं. 2011 का 20 (फा. सं. ए-32014/1/2008-प्रशा.-I-क)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के

निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों (नि.स.) को 30.09.2011 तक अथवा नियमित निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) (नि.स.) में कार्यभार संभालने की तारीख
----------	----------------	--

श्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	ए. के. सामंता	12.05.2011
2.	ओ. पी. नरूला	12.05.2011
3.	शशि साहनी	12.05.2011
4.	सतीश कुमार	12.05.2011
5.	इंदु कोचर	12.05.2011
6.	पी. कासिनधा राय	12.05.2011
7.	जगबीर सिंह	16.05.2011
8.	चाणक्य केलकर	12.05.2011
9.	चन्द्र शेखर छाबड़ा	12.05.2011
10.	मंजु राकेश	12.05.2011
11.	वीना बजाज	12.05.2011
12.	सुधा शर्मा	12.05.2011
13.	मुकेश कुमार	12.05.2011
14.	नफे सिंह	12.05.2011
15.	एस. के. सचदेवा	12.05.2011
16.	राकेश कुमार	12.05.2011
17.	जसोदा	12.05.2011
18.	किरण लाकड़ा	12.05.2011
19.	रोज मिंज	12.05.2011

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में नाम शामिल किए जाने या के.स.आ.से. के निजी सचिव (नि.स.) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2011

सं. ए-35011/1/2011-ए.डी.ई.डी.--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय के निम्नलिखित सहायक निदेशकों (ग्रेड-I)

को उनके सामने दर्शाई गई तारीख से पदोन्नति पर और अगले आदेशों तक पे बैंड-4 (15,600--39,100/- रुपए) में 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित उप निदेशक, प्रवर्तन के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री एम. जी. अत्री	11.04.2011
2.	श्री आई. एम. भाटिया	11.04.2011
3.	श्री आर. के. दुबे	11.04.2011

ए. सी. मल्लिक, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2011

सं. ए-12011/05/2010-प्रशा.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 29.03.2011 के का. ज्ञा. सं. 3/1/2011-सी.एस.-II और व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 16.05.2011 के का. ज्ञा. सं. ए-32014/4/2010-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों को रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 + रुपए 6,600/- ग्रेड वेतन में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तारीखों से 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	मंत्रालय जहां वे कार्यरत थे	आर्थिक कार्य विभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की तारीख
----------	----------------	-----------------------------	--

श्री/श्रीमती/सुश्री

1.	इंदिरा रानी बहल	सूचना व प्रसारण मंत्रालय	06.05.2011 (पूर्वाह्न)
2.	निशा अरोड़ा	सूचना व प्रसारण मंत्रालय	06.05.2011 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारियों को पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें उस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव के पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 25 मई 2011

सं. ए-12011/05/2010-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 29.03.2011 के का. ज्ञा. सं. 3/1/2011-सी.एस.-II

तथा व्यय विभाग (सीएसएस) के दिनांक 02.05.2011 और 04.05.2011 के का. ज्ञा. सं. ए-32014/4/2010-सीएसएस के अनुसरण में, केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 6,600/- रुपए ग्रेड पे सहित 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तारीख से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित रूप से पदों के भरे जाने तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	मंत्रालय/विभाग जहां वे कार्यरत हैं	आर्थिक कार्य विभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की तारीख
श्री/श्रीमती/सुश्री			
1.	सरला ताहिलियानी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	11.04.2011 (पूर्वाह्न)
2.	योगेश शर्मा	आर्थिक कार्य विभाग	16.05.2011 (पूर्वाह्न)

2. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पूरी तरह तदर्थ आधार पर है और यह नियुक्ति अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव के पद में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2011

सं. ए-19012/13/2006-डीआरटी--श्री राकेश कुमार माथुर, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ने अपने त्यागपत्र के स्वीकृत होने पर दिनांक 05 मई, 2011 (अपराह्न) से पीठासीन अधिकारी का पदभार छोड़ दिया है।

जे.एस. फौगाट, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2011

सं. ए-32012/1/2011-स्था. II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का. ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय में कार्यरत सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री कर्म चन्द को दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक की अवधि अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कर्म चन्द की यह नियुक्ति पूर्णतः तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा वरीयता का दावा करने का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2011-स्था. II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का. ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय में कार्यरत सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव सुश्री गीता धवन को दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक की अवधि अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्रीमती गीता धवन की यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा वरीयता का दावा करने का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं होगा।

3. सुश्री गीता धवन को दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के अपराह्न से वस्त्र मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2011-स्था. II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का. ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय में कार्यरत सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री धन सिंह भारती को दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक की अवधि अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री धन सिंह भारती की यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा वरीयता का दावा करने का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2011-स्था. II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का. ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय में कार्यरत सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव सुश्री अचला को दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक की अवधि अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. सुश्री अचला की यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा वरीयता का दावा करने का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं होगा।

3. सुश्री अचला को दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से डीजीएफटी में तैनात किया जाता है।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 11 मई 2011

सं. ए-32012/1/2011-स्था.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अप्रैल, 2011 के का.ज्ञा.सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री हरि राम शर्मा को दिनांक 27 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक की अवधि अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री हरि राम शर्मा की यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2011-स्था.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का.ज्ञा.सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री सुधीर अरोड़ा को दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक की अवधि अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सुधीर अरोड़ा की यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2011-स्था.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का.ज्ञा.सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री पाल सिंह को दिनांक 27 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक की अवधि अथवा इस पद के नियमित

आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री पाल सिंह की यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. श्री पाल सिंह को दिनांक 27 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से डीजीएफटी में तैनात किया जाता है।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2011

सं. ए-32012/1/2011-स्था.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का.ज्ञा.सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री शैलेन्द्र बहुगुणा को दिनांक 03 मई, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक की अवधि अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री शैलेन्द्र बहुगुणा की यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/2011-स्था.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का.ज्ञा.सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री अनिल कुमार रतन को दिनांक 10 मई, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक की अवधि अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अनिल कुमार रतन की यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. श्री अनिल कुमार रतन, पीपीएस को दिनांक 10 मई, 2011 के पूर्वाह्न से विदेश व्यापार महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2011

सं. ए-22012/1/2011-स्थापना-I--राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/2011-सीएस-II(ए) दिनांक 29.03.2011 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिकों समूह 'क व ख' (विलयित) (निजी सचिव) की औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्ग में पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड पे 6,600/- रु. में प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 30.09.2011 तक या सरकारी सेवा से उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा नियमित आधार पर उक्त पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उनके नामों के सामने दी गई तारीख से बढ़ाते हैं :-

क्र. सं.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सूची में क्र. सं.	नाम	तैनाती	प्रधान निजी सचिव पद पर पदोन्नति की तिथि (तदर्थ)
		(श्री/श्रीमती/कुमारी)		
1.	40	आर. निर्मला	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	05.05.2011 (पूर्वाह्न)
2.	101	वेद प्रकाश	औ.नी. और सं.वि.	29.03.2011 (पूर्वाह्न)
3.	144	हरभजन कौर गिल	लोक उद्यम विभाग	13.04.2011 (पूर्वाह्न)
4.	195	आर. के. बजाज	दूर संचार	29.03.2011 (पूर्वाह्न)
5.	197	विजय कुमार	भारी उद्योग विभाग	29.03.2011 (पूर्वाह्न)
6.	297	एम. पी. जैन	भारी उद्योग विभाग	29.03.2011 (पूर्वाह्न)
7.	300	आर. सी. शर्मा	भारी उद्योग विभाग	29.03.2011
8.	321	सुरेश कुमार नैयर	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	29.03.2011 (पूर्वाह्न)
9.	391	एस. हरिहरन	औ.नी. और सं.वि.	07.04.2011 (पूर्वाह्न)

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर उक्त अधिकारियों की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे अधिकारियों को उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 23 मई 2011

सं. ए-12023/1/2009-ई-I--राष्ट्रपति, वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनंद शर्मा) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में श्री आशीष बत्रा के कार्यकाल को उप सचिव स्तर (पीबी-3, वेतनमान 15,600--

39,100/- रु. + ग्रेड पे 7,600/- रु) पर दिनांक 30.03.2011 से 30.06.2011 तक तथा निदेशक स्तर (पीबी-4, वेतनमान 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड पे 8,700/- रु.) पर दिनांक 01.07.2011 से 30.03.2013 तक अथवा सह-समाप्य आधार पर अथवा मंत्री जी के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य छोड़ने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2011

सं. ए-32011/4/2005-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.08.2010 के का. ज्ञा. सं. 6/5/2010-सीएस-I(एस) और दिनांक 11.11.2010 एवं 07.04.2011 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में निम्नलिखित सहायकों की इस मंत्रालय में 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4,800/- रु. में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को, प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

क्र. सं.	नाम	निम्नलिखित तारीख तक बढ़ाई गई अवधि
1.	श्री अशोक कुमार	30.06.2011
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार	30.06.2011
3.	श्रीमती प्रोमिला शुक्ला	30.06.2011
4.	श्री एच. बी. सिंह	30.06.2011
5.	श्री टीकम सिंह	30.06.2011
6.	श्री बसन्त कुमार	30.06.2011
7.	श्री रमेश चन्द्र	30.06.2011
8.	श्री रत्नाकर यादव	30.06.2011
9.	श्री एस. यू. अंसारी	30.06.2011
10.	श्री के. पी. शाह	30.06.2011

2. अनुभाग अधिकारी के पद पर उक्त अधिकारियों की नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए कार्य करते रहने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2011

सं. ए-19011/3/2011-स्था.--राष्ट्रपति, श्री पवन गुप्ता, अवर सचिव को वर्ष 2010 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन सूची में सलेक्शन

ग्रेड (उप सचिव) में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 16 मई, 2011 के अपराह्न से पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- (ग्रेड-पे रु. 7,600/-) में रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर प्रोन्नत करते हैं।

आर. के. कुरील, उप सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2011

सं. ए-12012/3/2011-स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का.ज्ञा.सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) के सी.एस.एस.एस. संवर्ग के श्री तिलक राज, स्थाई स्टेनोग्राफर ग्रेड "ए एवं बी" (विलय) (निजी सचिव) को वेतन संरचना पीबी-3, 15,600--39,100/- रु. जमा 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में कोयला मंत्रालय में सी.एस.एस.एस. संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के पद पर 13 मई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की जा रही है और उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने के लिए अथवा सी.एस.एस.एस. के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2011

सं. पी.1/475/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, एफआर (के) (1) और (1-ए) (ए) के प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 01 मई, 2011 (पूर्वाह्न) से खान मंत्रालय में श्री जे. एन. बासमुतारी, सीएसएस, उप सचिव, को सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को अनुमति देते हैं।

नीता गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2011

सं. 3/11/2004-स्था.--राष्ट्रपति, दिनांक 13.5.2011 (पूर्वाह्न) से श्री मदन लाल को खान मंत्रालय में उप-सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीता गुप्ता, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2011

सं. 2(15)/2003-स्थापना--राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के दिनांक 18 मार्च, 2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में इस्पात मंत्रालय में श्री बी. डी. घोष, संयुक्त औद्योगिक सलाहकार की अतिरिक्त औद्योगिक

सलाहकार के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 18 मार्च, 2011 से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा आगे आदेश होने तक आगे बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से इन्हें इसी पद पर नियमितकरण अथवा किसी प्रयोजनार्थ इसी ग्रेड में वरीयता का अधिकार नहीं होगा। सरकार को बिना किसी कारण बताए अथवा नोटिस दिए श्री बी. डी. घोष को तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार है।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

दिनांक 6 मई 2011

सं. 2(7)/2009-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3.1.2011 सीएस-II(ए) के तहत तदर्थ आधार पर पदोन्नति किए जाने के परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय में सीएसएसएस के नियमित निजी सचिव श्री राजेंद्र वेद को इस्पात मंत्रालय में 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में प्रमुख निजी सचिव (तदर्थ आधार पर) के रूप में दिनांक 29 अप्रैल, 2011 (अपराह्न) से दिनांक 30.09.2011 की अवधि अथवा नियमित पीपीएस उपलब्ध होने अथवा आगे आदेश होने, इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति निम्न शर्तों पर आधारित होगी :--

(i) इस नियुक्ति पर इन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा सीएसएसएस के पीपीएस के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2011

सं. 2(12)/2010-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 फरवरी, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5(12)/2010-सीएस-II(ए) के तहत चयन सूची वर्ष 2010 में उनका नाम शामिल किए जाने व परिणामस्वरूप इस्पात मंत्रालय ने वरिष्ठ पीपीएस (तदर्थ) श्री आर. के. महाजन को दिनांक 14 फरवरी, 2011 को तत्काल प्रभाव से ग्रेड-पे 7,600/- रुपये के साथ पे-बैंड-3 में इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 मई 2011

सं. ए-45011/13/2005-प्रशा.--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) और 19(1) के अनुसार और इस विषय पर जारी पिछली सभी अधिसूचनाओं तथा संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए

श्री शशांक गोयल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को एतद्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अगले आदेश तक श्री अंबुज शर्मा, संयुक्त सचिव के स्थान पर विभाग के संबंध में अपील प्राधिकारी नामित किया जाता है :-

1. अपील प्राधिकारी

श्री शशांक गोयल

संयुक्त सचिव

दूरभाष : 23062207

ई-मेल आईडी : shashank.goel@nic.in

पता : कमरा सं. 174, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-11

एल. सी. राम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2011

सं. आई-13011/2/2011 ओ एंड एम--केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क) के तहत दिनांक 15.11.2010 के आदेश सं. सीआईसी/एटी/डी/10/000111 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अधिनियम के तहत धारा 4 की जिम्मेदारियों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए इस विभाग में निदेशक (सहकारिता) को उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के लिए पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

प्रदीप एम. लाल, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2011

सं. ए-11011/6/2007-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सी. एस.-II(ए) के अनुसरण में संस्कृति मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित निजी सचिव श्री राना दास को 23 मई, 2011 के पूर्वाह्न से 30.09.2011 तक या नियमित प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड (वेतन बैंड-3) तथा 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चितकाल के लिए ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में रिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ओम प्रकाश, उप सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 2011

सं. ए-12022/1/2009-स्था.1--राष्ट्रपति, ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग) में नियमित अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) श्री विनोद कुमार को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में 12 मई 2011 के पूर्वाह्न से उप सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

संजय कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 22012/88/1999-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1993-94 की चयन सूची के आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का जम्मू और कश्मीर संवर्ग आवंटित करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	अशोक कुमार गुप्ता	01.07.1949
2.	असगर इनायतुल्ला	15.04.1952

2. यह श्री विजय सिंह चरक बनाम यूओआई द्वारा दाखिल सीए सं. 6660/2000 में दिनांक 26.02.07 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के श्रीनगर में एलपीए सं. 284/2009, सीएमपी सं. 419/2009, एसडब्ल्यूपी सं. 1009/2010 सीएमपी सं. 1420/2010 के परिणाम के अधीन हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

सं. 22012/88/1999-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1999 की चयन सूची के आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का जम्मू और कश्मीर संवर्ग आवंटित करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	वी. के. रैना	20.12.1952
2.	एस. के. कोहली	24.08.1957

1	2	3
3.	फारूख अहमद गिलानी	18.04.1961
4.	जावेद इकबाल पंजु	01.10.1958

2. यह श्री विजय सिंह चरक बनाम यूओआई द्वारा दाखिल सीए सं. 6660/2000 में दिनांक 26.02.07 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के श्रीनगर में एलपीए सं. 284/2009, सीएमपी सं. 419/2009, एसडब्ल्यूपी सं. 1009/2010 सीएमपी सं. 1420/2010 के परिणाम के अधीन हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

सं. 22012/88/1999-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 1990 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत भारतीय वन सेवा का जम्मू और कश्मीर संवर्ग आर्बिट्रि करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	शमीम मुहम्मद खान	20.12.1951
2.	पीर बशीर अहमद कादरी	18.11.1944
3.	सुभाष चन्द्र	30.04.1952
4.	सुरज प्रकाश शर्मा	13.10.1956
5.	हरिन्दर सिंह सलाठिया	27.04.1954
6.	उपिन्दर पचनंदा	25.09.1955
7.	ए. बी. कयूम खान	10.02.1952
8.	मुहम्मद शफीख खान	17.05.1953
9.	मनूराज सिंह	20.07.1954
10.	ललित के. आर. शर्मा	25.02.1955
11.	मंजूर अहमद	11.04.1953
12.	मुहम्मद हुसैन	10.03.1954
13.	हफीजुल्लाह सिद्दिकी	18.05.1953
14.	महेश चन्द्र	18.05.1956
15.	अरूण कुमार	14.11.1956

2. यह श्री विजय सिंह चरक बनाम भारत संघ द्वारा दायर सी.ए. सं. 6660/2000 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.02.07 के निर्देशों के अनुसरण में है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में एलपीए सं. 284/2009, सीएमपी सं. 419/2002, एसडब्ल्यूपी सं. 1009/2010 सीएमपी सं. 1420/2010 के निर्णय के अधीन हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

सं. 22012/88/1999-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 1996-97 की चयन सूची के आधार पर तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत भारतीय वन सेवा का जम्मू और कश्मीर संवर्ग आर्बिट्रि करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	निसार अहमद दर्जी	27.04.1958
2.	निसार हुसैन हाकिम	01.10.1952
3.	बी. एल. जड्डू	10.11.1951
4.	एम. ए. टक	15.07.1954
5.	आर. एस. जसरोटिया	22.08.1956

2. यह श्री विजय सिंह चरक बनाम भारत संघ द्वारा दायर सी.ए. सं. 6660/2000 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.02.07 के निर्देशों के अनुसरण में है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में एलपीए सं. 284/2009, सीएमपी सं. 419/2002, एसडब्ल्यूपी सं. 1009/2010 सीएमपी सं. 1420/2010 के निर्णय के अधीन हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

सं. 22012/88/1999-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2000 की चयन सूची के आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966

के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का जम्मू और कश्मीर संवर्ग आबंटित करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	अशोक कुमार मिश्रा	12.09.1950
2.	ए. जी. हाजम	06.06.1959
3.	नरिन्दर सिंह	21.01.1953

2. यह श्री विजय सिंह चरक बनाम यूओआई द्वारा दाखिल सी.ए. सं. 6660/2000 में दिनांक 26.02.07 का माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के श्रीनगर में एलपीए सं. 284/2009, सीएमपी सं. 419/2009, एसडब्ल्यूपी सं. 1009/2010 सीएमपी सं. 1420/2010 परिणाम के अधीन हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

सं. 22012/88/1999-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 1986 की चयन सूची के आधार पर तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत भारतीय वन सेवा का जम्मू और कश्मीर संवर्ग आबंटित करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	मोहम्मद शफी	13.03.1932
2.	एस. सी. शर्मा	28.09.1939

2. यह श्री विजय सिंह चरक बनाम भारत संघ द्वारा दायर सी.ए. सं. 6660/2000 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.02.07 निर्देशों के अनुसरण में है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां श्रीनगर स्थित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में एलपीए सं. 284/2009, सीएमपी सं. 419/2002, एसडब्ल्यूपी सं. 1009/2010 सीएमपी सं. 1420/2010 के निर्णय के अधीन हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

सं. 22012/88/1999-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम

(1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1991-92 की चयन सूची के आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के श्री विजय सिंह चरक (जन्म तिथि 05.02.1954) को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का जम्मू और कश्मीर संवर्ग आबंटित करते हैं।

2. यह श्री विजय सिंह चरक बनाम यूओआई द्वारा दाखिल सी.ए. सं. 6660/2000 में दिनांक 26.02.2007 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर में एलपीए सं. 284/2009, सीएमपी सं. 419/2009, एसडब्ल्यूपी सं. 1009/2010 सीएमपी सं. 1420/2010 के परिणाम के अधीन हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

सं. 22012/88/1999-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1995-96 की चयन सूची के आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य वन सेवा के श्री ए. आर. लाटे (जन्म तिथि 31.03.1944) को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का जम्मू और कश्मीर संवर्ग आबंटित करते हैं।

2. यह श्री विजय सिंह चरक बनाम यूओआई द्वारा दाखिल सी.ए. सं. 6660/2000 में दिनांक 26.02.2007 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर में एलपीए सं. 284/2009, सीएमपी सं. 419/2009, एसडब्ल्यूपी सं. 1009/2010 सीएमपी सं. 1420/2010 के परिणाम के अधीन हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110510, दिनांक 19 अप्रैल 2011

सं. 17013/24/2009-आईएफएस-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति पर नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित प्रावधानों के अनुपालन में संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश कांडर संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति कोटा शक्तियों को भरने के लिए मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल करते हुए माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की रिट याचिका सं. 2590/2003, दिनांक 12.10.2004 और रिट याचिका सं. 2590/2003, में सिविल याचिका सं. 678/2006, दिनांक 11.04.2007 के आदेशों के अनुपालन में मध्य प्रदेश वन सेवा में पदोन्नति हेतु वर्ष 1977 की चयन सूची अनुमोदित की है।

अधिकारी का नाम तथा जन्म तिथि

श्री चमन लाल ओहरी--28.09.1932

2. संवीक्षा चयन समिति ने यह अनुमोदित किया है कि भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में पदोन्नति हेतु 1977 की चयन सूची में उनका नाम क्रम सं. 27 पर श्री एस. वी. खेमरिया के नाम के नीचे और क्रम सं. 28 पर श्री वी. डी. तारे के नाम के ऊपर सं. 27क पर शामिल किया जाए।

जोसेफ लुईखेम, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 24 मई 2011

सं. ए-12025/07/2011-के.स्वा.सेवा-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. भावना मल्होत्रा सिंह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परीक्षा पर दिनांक 08.04.2011 के अपराह्न से अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-II (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के पद पर नियुक्त करती है।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2011

सं. ए-19011/15/2006-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, सुश्री स्वर्ण माला रावला, भा.प्र.से. (मध्य प्रदेश : 80) को मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के उनके संदर्भ संख्या 22/5/2011-ईओ (एसएम-I) दिनांक 26 मई, 2011 के अधीन अनुमोदन पर उनके द्वारा धारित पद का अस्थाई तौर पर दर्जा बढ़ाते हुए 05.05.2011 के पूर्वाह्न से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में 67,000--79,000/- रुपए के एचएजी वेतनमान में (वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत की दर पर) अपर सचिव के पद पर स्वस्थाने आधार पर नियुक्त करती है।

सुभाष चंद खत्री, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2011

सं. 5-1/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/7/2011-ईओ (एसएम.1) के अनुसरण में सुश्री लोपामुद्रा मोहन्ती, आईपी, टीए एवं एफएस (1999) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 03.05.2011 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, उप सचिव के पद पर नियुक्त करती है।

नवीन यादव, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2011

सं. 11036/13/2009-पी.सी.एण्ड वी.--इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11036/09/2006-पी.सी.एण्ड वी., दिनांक 01.07.2010 में आंशिक

संशोधन करते हुए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खंड 5(1) के अनुसार इस मंत्रालय के दिनांक 01.07.2010 के कार्यालय आदेश तथा उपरोक्त अधिसूचना की क्रम सं. 10 पर दर्शाए गए विशिष्ट विषयगत मामलों के संबंध में श्री आर. रामामूर्ति, उपसचिव को श्री असित गोपाल, निदेशक के स्थान पर एतद्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री आर. रामामूर्ति का सरकारी पता एवं दूरभाष सं. निम्नानुसार है :-

श्री आर. रामामूर्ति,
उप सचिव,
कमरा सं. 218, "डी" विंग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110115
(दूरभाष सं. 23383965)

3. उपरोक्त अधिसूचना की क्रम सं. 10 पर दर्शाया गया श्री असित गोपाल, निदेशक के नाम को हटया गया समझा जाए।

जे. के. पोपली, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2011

सं. 12032/1/2009-स्था.--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-22014/01/2011-स्था-II दिनांक 06.05.2011 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री राजकुमार को जनजातीय कार्य मंत्रालय में दिनांक 09.05.2011 (पूर्वाह्न) से प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

असित कुमार साहा, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 मई 2011

सं. 2(10)/2010-पीए(टीए)--राष्ट्रपति महोदय द्वारा निम्न अधिकारि को निम्न विवरण अनुसार 23.05.2011 (पूर्वाह्न) से अगले उच्च ग्रेड नियुक्त किया गया है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	जिस पद पर पदोन्नत हुए
1.	श्री सिद्ध नाथ सिंह	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 (रु. 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन 5,400/-)	उप निदेशक (रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन 6,600/-)
2.	श्री गौतम विश्वास	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 (रु. 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन 5,400/-)	उप निदेशक (रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन 6,600/-)

एस. रामाकृष्णन्, उप निदेशक

डाक विभाग

नई दिल्ली-110116, दिनांक 9 मार्च 2011

सं. 3-1/2010-प्रशासन--दिनांक 20.12.2010 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/25/2010-सी.एस.-II(ए) के तहत वरिष्ठता कोटा (एसक्यू) के लिए जोनिंग स्कीम के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2008 के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (आमेलित) की चयन सूची में सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, सहर्ष, श्री एन. के. भसीन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सी.एस.एस.एस. के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' (तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्यरत) को दिनांक 25.02.2011 (अपराह) से डाक विभाग में 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (पी. बी.-2) में सी.एस.एस.एस. के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (आमेलित) (निजी सचिव) के रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 7 अप्रैल 2011

सं. 3-3/2011-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/12/2010-सीएस-II (ए) दिनांक 14 फरवरी 2011 के तहत सीएसएसएस की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की चयन सूची में नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति एतद्वारा श्री वी. के. टंडन, जो वर्तमान में डाक विभाग में सीएसएसएस में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, को 15,600--39,100/- रु. + 7,600/- रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति करते हैं।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2011

सं. ई (ओ) III-2011/आर.एन./10--श्री विजय आनंद, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा का रेल विकास निगम लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 08.04.2011 (अपराह) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 मई 2011

स. ए-19011/8/2009-स्था.--पोत परिवहन मंत्रालय से श्रीमती जसिंद जोस, उप सचिव (सीएसएस सं. 4109) अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने के कारण शासकीय सेवा से दिनांक 31.05.2011 (अपराह) से सेवानिवृत्त होगी।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 2011

सं. ए-19011/10/2005-ई-I--इस मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. ए-19011/10/2005-ई-I के अनुक्रम में और नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 मई, 2011 के आदेश सं. 27/34/2010-ई.ओ. (एस.एम.-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री सरोज कुमार दास, आईएस (एच. पी. 80) की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल दिनांक 30 अप्रैल, 2011 से आगे दो माह की अवधि के लिए अथवा किसी उत्तराधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ते हैं।

एच आर. मीणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2011

सं 19/2011 (फा सं 1/1/2011-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव, राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) को दिनांक 01.03.2011 से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा मंत्री जी के साथ सअवसानिक आधार पर अथवा मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा उनकी इच्छानुसार, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, माननीय विद्युत राज्यमंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल) के ओ. एस. डी., अवर सचिव के स्तर पर, के रूप में नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

सं. 20/2011 (फा. सं. 2/8/2010-प्रशा.-II)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 मई, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010-सी. एस.-आई (डी.) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-1 (अवर सचिवों) अधिकारियों को चयन सूची वर्ष 2010 के लिए प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीखों से विद्युत मंत्रालय में सीएसएस (उप सचिव) के चयन ग्रेड, वेतन बैंड-III (रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) में नियुक्त किया जाता है:--

क्रम	अधिकारी का नाम	मंत्रालय, जहां अवर सचिव के रूप में कार्य किया/कार्यरत हैं	विद्युत मंत्रालय में उपसचिव के रूप में नियुक्ति की तारीख
------	----------------	---	--

सर्वश्री			
1.	सी जे. जोस	विद्युत मंत्रालय	09.05.2011
2.	के. एल. शर्मा	गृह मंत्रालय	11.05.2011

2. उपर्युक्त पदोन्नति, सुश्री गरिमा सिंह द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (कैट, मुख्य पीठ, नई दिल्ली को अंतरित) के विरुद्ध माननीय कैट, कोलकाता के समक्ष दायर ओए सं. 1864/2009 में अंतिम आदेशों के अधीन है।

मधुकर सूद, अवर सचिव

दिनांक 24 मई 2011

सं. 3/2011 (मि.सं.ए-35018/1/2010-प्रशा. एक)--राष्ट्रपति, विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36) की धारा 70 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कौशल किशोर अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, को प्रतिनियुक्ति आधार पर 67,000--79,000/- रुपये के वेतन श्रेणी में भारत सरकार में अपर सचिव के पदेन स्तर में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) पद पर उनके नियुक्ति की तिथि 03.05.2011 से पांच वर्ष के लिये, या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, या अगले आदेशों तक, नियुक्ति करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मई 2011

सं. 148/2011 (फा. सं. 6/1/2007-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री खुशीद अहमद गनाइ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जम्मू एवं कश्मीर : 82) को दिनांक 16.05.2011 के पूर्वाह्न से उनकी अधिवर्षिता की आयु होने की तारीख अर्थात् 31.10.2015 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 10,000/- रु. के ग्रेड पे के साथ 37,400--67,000/- रु. के पे बैंड (पे बैंड-4) में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2011

सं. ए-11019/1/2011-प्रशा-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च 2011 के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस-II (ए) के माध्यम से तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में प्रोन्नति पर शहरी विकास मंत्रालय के संवर्ग में नामांकन किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, द्वारा प्रत्येक के नाम के आगे यथाउल्लिखित मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ए एवं बी' (सम्मिलित) (निजी सचिवों) को तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के पद पर प्रत्येक के नाम के आगे उल्लिखित तिथि से 30.09.2011 तक की अवधि हेतु अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है:--

क्रम सं.	नाम	संवर्ग जिससे संबंधित हैं	प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
1	2	3	4
1.	श्री सुरेश शर्मा	संघ लोक सेवा आयोग	25.04.2011 (पूर्वाह्न)
2.	श्रीमती आशा निचानी	केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय	28.04.2011 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
3.	श्रीमती रजनी आहूजा	डीएवीपी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	29.04.2011 (पूर्वाह्न)
4.	श्रीमती कामिनी बंसल	केन्द्रीय जल आयोग	03.05.2011 (पूर्वाह्न)
5.	श्रीमती आशा शर्मा	केन्द्रीय विद्युत बोर्ड, ऊर्जा मंत्रालय	04.05.2011 (पूर्वाह्न)
6.	श्रीमती पूनम पाल	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	04.05.2011 (अपराह्न)
7.	श्री अविनाश चन्द्र उप्पल	रक्षा मंत्रालय	05.05.2011 (पूर्वाह्न)
8.	श्री धरम बीर सिंह	केन्द्रीय जल आयोग	05.05.2011 (अपराह्न)

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड पर उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे उनको प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में अनिश्चित काल तक काम करने का अथवा वरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मई 2011

सं. ए-32014/1/2011-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, सीएसएसएस के निम्नलिखित निजी सहायकों को अगले आदेशों तक सीएसएसएस के निजी सचिवों के पद पर तदर्थ आधार पर नीचे दिए गए उनके नामों के आगे दी गई तारीखों से नियुक्त करती हैं:--

क्रम सं.	नाम	निजी सचिव द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमती/सुश्री	
1.	वलसम्मा जे.	29.04.2011
2.	के. वी. सिद्धार्थन	21.04.2011
3.	संगीता ठुकराल	25.04.2011
4.	रजनी पुरिया	21.04.2011
5.	अमरजीत सिंह	21.04.2011
6.	एम. सेशु	25.04.2011
7.	एच. सी. भटेजा	21.04.2011
8.	इंदू कोहली	29.04.2011
9.	राज पाल	21.04.2011
10.	जसविन्द्र सिंह	21.04.2011
11.	इंदू सूद	26.04.2011
12.	सुनीता	25.04.2011
13.	के. सतीसन	21.04.2011
14.	एस. पुत्ताना	28.04.2011

ए. के. ठाकुर, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2011-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, सीएसएसएस के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों के अगले आदेशों तक सीएसएसएस के मुख्य निजी सचिवों के पद पर तदर्थ आधार पर नीचे दिए गए उनके नामों के आगे दी गई तारीखों से नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रधान निजी सचिवों द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
----------	-----	--

1	2	3
	श्री/श्रीमती/सुश्री	
1.	जय सिंह	01.04.2011 (पूर्वाह्न)
2.	हरमिन्दर सिंह	01.04.2011 (पूर्वाह्न)

1	2	3
3.	राधा वेंकटरमन	08.04.2011 (पूर्वाह्न)
4.	लता डावर	08.04.2011 (पूर्वाह्न)
5.	भुवनेश्वर सिंह	11.04.2011 (पूर्वाह्न)
6.	बी. एस. भाटिया	27.04.2011 (अपराह्न)
7.	मंजु पैकरे	29.04.2011 (पूर्वाह्न)
8.	सरिता शर्मा	29.04.2011 (पूर्वाह्न)
9.	जगदीश लाल	04.05.2011 (पूर्वाह्न)

ए. के. ठाकुर, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 24th May 2011

No. A-22017/1/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri S. B. Iyer, Joint Director of Railway Board Secretariat Service, as Officer on Special Duty to Minister of State in Prime Minister's Office (Sh. V. Narayanasamy) with effect from the afternoon of 05th May, 2011.

2. The appointment of Shri S. B. Iyer is co-terminus with the tenure of and at the discretion of the Minister of State in Prime Minister's Office.

P. K. PALI, Under Secy.

The 27th May 2011

No. A-22012/004/2010-PME—The President is pleased to appoint Shri V. K. Sharma, Steno Grade 'C' of Department of Commerce as Private Secretary in the National Advisory Council on deputation basis with effect from the afternoon of 26th April, 2011 or until further orders.

2. This issues in supersession of this office order of even No. dated 14.05.2011.

P. K. PALI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 25th May 2011

No. RS/3/5/2011/41-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Junior Parliamentary Interpreter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Parliamentary Interpreter on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- + usual allowances admissible under the rules with effect from the forenoon of 23rd May, 2011 and until further orders :—

1. Shri Anurag Bajpai
2. Shri Saurabh Shekhar
3. Shri Rahul Naresh Joshi
4. Kum. Vietnam V.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/3/3/2011/42-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the Shri Daya Shankar, Junior Parliamentary Reporter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Parliamentary Reporter in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- + usual allowances admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 3rd May, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/3/8/(1)2011/43-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the Shri Dharmendra Kumar Gautam, Assistant Director (Security) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (Security) on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- + usual allowances admissible under the rules with effect from the forenoon of the 24th May, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/3/8/(1)2011/44-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the Dr. Ram Vakil, Senior Security Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Security Officer on ad hoc basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- + usual allowances admissible under the rules with effect from the forenoon of the 24th May, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/3/8(1)2011/45-Perl.—Shri Krishna Bihari Mishra, who was earlier appointed to officiate as Security Officer on ad hoc basis vide Notification No. RS/3/8/1/2010/30-Perl. dated 20th April, 2010 has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of 24th May, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 26th May 2011

No. RS/3/6/1/2011/46-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the Smt. Santosh Nase Printing Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director (P&P) on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay of Rs. 6,600/- + usual allowances admissible under the rules with effect from the forenoon of the 26th May, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 16th May 2011

No. A-19015/02/1987 Ad-I—The President is pleased to appoint Shri M. Dinakaran, Grade-I (Under Secretary) officer of CSS presently working as Staff Officer to Cabinet Secretary on deputation basis in Cabinet Secretariat as Deputy Secretary on regular basis with effect from 9th May 2011 (FN), consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010 vide Department of Personnel and Training Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 9th May, 2011.

SUNIL MISRA, Dir. (Admn.)

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th May 2011

No. A-19011/3/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Lieutenant General Prakash Menon, as Military Adviser in the National Security Council Secretariat against the vacant post of Deputy NSA (SD) with effect from the forenoon of 19th May 2011, for a period of two years or until further orders, whichever is earlier, initially on deputation basis till his superannuation on 31st October 2011, and re-employment on contract basis for the remainder period in the rank and pay of the Secretary to Government of India.

M.S.S. NAIR, Dy. Secy.

The 30th May 2011

No. A-19011/2/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Vijaya Latha Reddy, IFS (75) as Deputy National Security Adviser and Secretary in the National Security Council Secretariat, for a period of two years with effect from the forenoon of 21st March 2011, initially on deputation basis till her superannuation on 30.04.2011 and thereafter, on re-employment on contract basis.

M.S.S. NAIR, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 10th May 2011

No. F. 6(2159)/2011-Admn.-I—In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. T-11/2011 dated 18.04.2011 issued from their file No. 13016/3/2011-IES, Shri N. Srinivasa Rao, NFSG officer of IES has assumed charge as Director in Regional Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), Hyderabad in Pay Band-4 i.e. Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 04.05.2011 (FN).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 31st May 2011

No. A-12025/21/2000-Admn.-I—The Competent Authority has accorded ex-post facto approval of for extension of tenure of deputation of Shri M. Satyamurty as Joint Adviser (Coal) in Planning Commission from 07.09.2008 to 30.04.2009. Shri Satyamurty has since been repatriated to his parent organisation, DGMS, Dhanbad vide Planning Commission's Notification of even number dated 30.04.2009.

G. RAJEEV, Under Secy.

New Delhi-110001, the 20th May 2011

No. A-32013/02/2011-Admn.-III—In partial modification of this Commission's Notification (English version) of even

number dated 10th May, 2011 the date of joining in the PPS Grade of CSSS in Planning Commission of Smt. Madhuri N. Shende as mentioned at S. No. 4 in para 1 may be read as 05.05.2011 instead of 05.04.2011.

2. Other contents of the aforesaid Notification will remain unchanged.

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

No. A-32013/02/2011-Admn.-III—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS. II, dated the 29th March, 2011 and after being relieved of their duties from their respective Cadre Units, the President is pleased to appoint the following regular Private Secretary of CSSS of the Cadre Units mentioned against each as Principal Private Secretary of CSSS in Planning Commission in the scale of (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis with effect from the dates mentioned against each for the period upto 30.09.2011 or till the post are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name of the officers	Category	SLY in PS Grade	Cadre where working as regular Private Secretary	Date of joining as PPS on ad hoc basis in Planning Commission
Shri/Smt./Kum.					
1.	Shanta Devi	SC	2003	I&B	06.05.2011 (FN)
2.	V. Arumughan	Gen.	1993	H&FW	11.05.2011 (FN)

2. The appointment of these officers to the grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 30th May 2011

No. A-19011/46/2011-UIDAI—In pursuance of approval of the Competent Authority as conveyed by Finance Department, Government of Madhya Pradesh Letter No. 1025/1099/2011/E-Four dated 25.05.2011 Shri Upendra Sharma has assumed the charge of Deputy Director in the Regional Office of Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 30.05.2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade pay of Rs. 6,600/- on deputation for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

ARUN KUMAR SARKAR, Dy. Director

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 29th April 2011

No. K. 11019/3/2011-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Adarsh Kumar Goel, Judge of the Punjab & Haryana High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court from 02.05.2011 to 29.05.2011 during the absence of Shri Justice Ranjan Gogoi, Chief Justice, on leave.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 2nd May 2011

No. K. 13014/02/2009-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Girish Shrikrishna Godbole, to be an Additional Judge of the Bombay High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 6th May 2011

No. K. 13016/01/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Ghulam Minhajuddin, and (2) Shri Radhe Shyam Sharma, to be Additional Judges of the Chhattisgarh High Court, in the same order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K. 13017/02/2011-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Ajit Bharihoke (ii) Shri Vinay Kumar Jain, (iii) Smt. Indermeet Kaur Kochhar, and (iv) Shri Anil Kumar Pathak, to be Additional Judges of the Delhi High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from 14th May, 2011, except Shri Ajit Bharihoke, whose tenure shall be upto October 16, 2011 i.e. the date of superannuation.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 12th May 2011

No. K. 11019/3/2011-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Prakash Chandra Tatia, seniormost Judge of the Jharkhand High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that

High Court with effect from 13th May, 2011 consequent upon the retirement of Shri Justice Bhagwati Prasad, Chief Justice of the Jharkhand High Court.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 16th May 2011

No. K. 13024/04/2010-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Periya Veedu Quadir Meeran Barkath Ali, to be an Additional Judge of the Kerala High Court, with effect from 21st May, 2011 till 5th May, 2012.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 26th May 2011

No. I-18011/13/2010-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Madhya Pradesh with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Abhay Singh, IPS (MP : 2002)	02.09.2004
2.	Harinarayanachari Mishra, IPS (MP : 2003)	29.12.2005

RAJINDER KUMAR, Section Officer

No. I-18011/9/2010-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Maharashtra with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Sanganakal Veresh Prabhu, IPS (MH : 2005)	22.08.2007
2.	Manoj Kumar Sharma, IPS (MH : 2005)	22.08.2007
3.	Mohd. Suvez Haque, IPS (MH : 2005)	22.08.2007
4.	Ms. Nikam Sharda Vasant, IPS (MH : 2005)	22.08.2007

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 23rd May 2011

No. A-32013/1/2011-Ad. I.—The President is pleased to appoint Ms. Amarpreet Duggal, IPoS (1999), as Deputy Secretary in the Pay Band-3 (PB-3) Rs. 15,600–39,100/- + 7,600/- (Grade Pay) in Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 12th May, 2011 for a period of four years or until further orders whichever is earlier.

JAYANTHI SRIRAM, Under Secy.

The 25th May 2011

No. A-32014/1/2011-Ad. I.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List (Part) of the year 2010 and appointment to the grade of Senior Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service in DP&T's O.M. No. 5/12/2010-CS.II(A) dated 25th March, 2011, the President is pleased to appoint Shri Jawahar Peswani, regular Principal Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Personnel P.G. & Pensions as regular Senior Principal Private Secretary in the pay structure of PB-3 Rs. 15,600–39,100/- + Rs. 7,600/- (GP) w.e.f. 25th March, 2011.

JAYANTHI SRIRAM, Under Secy.

No. A-32014/1/2011-Ad. I.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List (Part) of the year 2010 and nomination for appointment to the grade of Senior Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service in DP&T's O.M. No. 5/12/2010-CS.II(A) dated 14th February, 2011, the President is pleased to appoint the Shri Ved Amrit Manchanda, regular Principal Private Secretary of Ministry of Urban Development in the Cadre of Ministry of Personnel P.G. & Pensions as regular Senior Principal Private Secretary in the pay structure of PB-3 Rs. 15,600–39,100/- + Rs. 7,600/- (GP) w.e.f. 25.03.2011 (FN).

JAYANTHI SRIRAM, Under Secy.

No. A-32014/1/2011-Ad. I.—The President is pleased to appoint following regular Steno Grade A&B (merged) of CSSS cadre of Ministry of Personnel, P.G. & Pensions in the grade of Principal Private Secretary of CSSS purely on ad hoc basis, in the PB-3 Rs. 15,600–39,100 + Grade Pay Rs. 6,600/- in this Department w.e.f. 30.03.2011 (F.N.) for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis and until further orders, in terms of CS Division's O.M. No. 3/1/2011-CS. II(A) dated 29th March, 2011.

1. Smt. Veena Khanna
2. Shri S. K. Sachdeva

JAYANTHI SRIRAM, Under Secy.

New Delhi, the 27th May 2011

No. 13017/05/2010-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Nagaland and Uttar Pradesh the Central Government hereby transfers Shri Abhishek Prakash, IAS (NL : 06) from Nagaland to Uttar Pradesh cadre on the ground of marriage to Ms. Aditi Singh, IAS (UP : 09).

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 13017/12/2010-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Sikkim, Haryana and Punjab the Central Government hereby transfers Ms. Isha, IAS(SK : 09) and Dr. Sumeet Jarangal, IAS (HY : 09) from their respective cadres to Punjab Cadre on the ground of marriage.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th February 2011

No. 6/PA-II/2011—The President is pleased to confirm the following officers of the Indian Foreign Service 2006 & 2007 Batches in the Indian Foreign Service with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of Officer	Batch	Present assignment	Date of Confirmation
	S/Sh./Smt.			
1.	Abhishek Shukla	2006	TS(LT), E/I, Beijing	04 November 2010
2.	Prasanna Shrivastava	2006	TS(LT), E/I, Beijing	04 November 2010
3.	Banu Prakash (Ms.)	2006	TS(LT), E/I, Seoul	04 November 2010
4.	Satwant Khanalia (Ms.)	2007	TS(LT), E/I, Paris	04 November 2010
5.	Manharsinh L. Yadav	2007	TS(LT), E/I, Brussels	04 November 2010
6.	Suneet Mehta	2007	US(GA), MEA, New Delhi	04 November 2010
7.	Paulomi Tripathi (Ms.)	2007	TS(LT), E/I, Madrid	04 November 2010
8.	Amit A. Shukla	2007	TS(LT), E/I, Brasilia	04 November 2010
9.	Shatrughna Singha	2007	TS(LT), E/I, Berlin	04 November 2010
10.	Mayank Singh	2007	TS(LT), E/I, Moscow	04 November 2010
11.	T. Angeline Premalatha (Ms.)	2007	US(AMS), MEA, New Delhi	04 November 2010
12.	Nandakumar N. (Dr.)	2007	TS(LT), E/I, Tehran	04 November 2010
13.	Neetu Mehrada Bhagotia (Ms.)	2007	US at Hqrs	04 November 2010

2. Consequent upon their confirmation in the Indian Foreign Services, the Officers are promoted as Under Secretaries in the Junior Scale of the service in their respective assignment with effect from the dates mentioned against their names.

KARTIK PANDE, Under Secy.

The 29th March 2011

No. 7/PA-II/2011—The President is pleased to appoint the following Officers of the Indian Foreign Service of 2006 batch in the Senior Scale of Indian Foreign Service with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of Officer	Batch/ YOA	Present assignment	Appointment in the Senior Scale
1.	S/Sh./Smt. (Ms.) Nair, Archana	2006	SS, E/I, Mexico City	01 July 2010
2.	Raghuram S.	2006	SS, E/I, Rabat	01 July 2010
3.	Sharma K. M. Praphullachandra	2006	US(SL), MEA, New Delhi	01 July 2010
4.	Rathish Rohit	2006	SS, HCI, Port Louis	01 July 2010
5.	Shukla Abhishek	2006	SS, E/I, Beijing	01 July 2010
6.	(Ms.) S. Gina Uika	2006	CG, CGI, Vladivostok	01 July 2010
7.	Bino George	2006	Consul, CGI, Munich	01 July 2010
8.	Rajpal Hitesh Jogenderlal	2006	SS, E/I, Panama	01 July 2010
9.	Prasanna Shrivastava	2006	SS, E/I, Beijing	01 July 2010
10.	Amarnath A.	2006	SS, E/I, Beijing	01 July 2010
11.	Bijay Selvaraj	2006	SS, E/I, Cairo	01 July 2010
12.	Banu Prakash	2006	SS, E/I, Seoul	01 July 2010
13.	M. Suresh Kumar	2006	SS, E/I, Tripoli	01 July 2010
14.	Neeharika Singh	2006	SS, E/I, Tokyo	01 July 2010
15.	Subhash Prasad Gupta	2006	Consul, CGI, Istanbul	01 July 2010
16.	Janesh	2006	SS, E/I, Kyiv	01 July 2010
17.	Bharath Kumar Kuthati	2006	SS, E/I, Damascus	01 July 2010
18.	Madan Mohan Sethi	2006	CG, CGI, Mandalay	01 July 2010
19.	Rajesh Uike	2006	Consul, CGI, Vladivostok	01 July 2010
20.	Abhijit Chakraborty	2006	SS, E/I, Luanda	01 July 2010

KARTIK PANDE, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 9th May 2011

No. 38 (F. No. A-19012/7/2011-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Gaurav Kanaujia, IRS (IT : 98021) as Deputy Secretary in the Department of Revenue for a period of four years with effect from 29.04.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 9th May 2011

No. 10/2011 (F.No. A-12015/11/2011-Ad.-IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure, (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 2nd May, 2011 the President is pleased to appoint Shir Vijay Takyar, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Agriculture as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis w.e.f. 06.04.2011 (F.N.) for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Shri Vijay Takyar to the post of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy

No. 11/2011 (F.No. A-19013/13/2011-Ad.-IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure, (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 2nd May, 2011 the President is pleased to appoint Shir Raman Pathak, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Home Affairs as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis w.e.f. 18.04.2011 (A.N.) for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Shri Raman Pathak to the post of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

No. 12/2011 (F. No. A-19013/10/2011-Ad.-IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's

O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure, (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 2nd May, 2011 the President is pleased to appoint Ms. Kamal Rani Soni, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Home Affairs as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis w.e.f. 05.04.2011 (F.N.) for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Ms. Kamal Rani Soni to the post of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the post indefinitely or to claim senioirity in that post.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

No. 13/2011 (F. No. A-12015/12/2011-Ad.-IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure, (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 2nd May, 2011 the President is pleased to appoint Shir Vikram Nair, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Union Public Service Commission as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis w.e.f. 18.04.2011 (A.N.) for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Shri Vikram Nair to the post of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim senioirity in the grade of PPS.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

The 10th May 2011

No. 14 of 2011 (F. No. A-32014/04/2009-Ad.-IA)—The President is pleased to appoint the following regular Private Secretary (PS) of CSSS as Principal Private Secretary of CSSS in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on ad hoc basis in the Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 4th May, 2011 and upto 30-09-2011 or till the posts are filled on regular basis or until further orders whichever is earlier :—

Name of the Officials	Department where working	Department where allocated
Shri J. Daniel Godfrey	Revenue	Revenue
Shri N. K. Bhardwaj	Revenue	Revenue

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

The 13th May 2011

No. 16/2011 (F. No. A-19013/15/2011-Ad.-IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure, (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 6th May, 2011 the President is pleased to appoint Shir Rajender Singh Negi, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Information & Broadcasting as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis w.e.f. 27.04.2011 (F.N.) for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Shri Rajender Singh Negi to the post of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim senioirity in the grade of PPS.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

No. 17/2011 (F. No. A-19013/18/2011-Ad.-IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure, (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 6th May, 2011 the President is pleased to appoint Ms. Geeta Rana, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Defence as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis w.e.f. 29.04.2011 (F.N.) for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Ms. Geeta Rana to the post of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the post indefinitely or to claim senioirity in that post.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

No. 18/2011 (F.No. A-19013/16/2011-Ad.-IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure, (CAS)'s O.M.No. A-32014/4/2010-CAS dated 6th May, 2011 the President is pleased to appoint Ms. Vimla Rani, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Water Resources as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis w.e.f. 05.05.2011 (F.N.) for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Ms. Vimla Rani to the post of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not

confer on her any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in that post.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

No. 19/2011 (F. No. A-19013/17/2011-Ad.-IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure, (CAS)'s O.M.No. A-32014/4/2010-CAS dated 6th May, 2011 the President is pleased to appoint Ms. Meenakshi Gupta, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Ministry of Information & Broadcasting as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis w.e.f. 27.04.2011 (F.N.) for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Ms. Meenakshi Gupta to the post of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in that post.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

The 19th May 2011

No. 20 of 2011 (F. No. A-32014/1/2008-Ad.-IA)—The President is pleased to appoint the following regular Personal Assistants (PAs) of CSSS cadre of Ministry of Finance to the grade of Private Secretary (PS) of CSSS with effect from the date mentioned against their names, initially upto 30.09.2011 or till regular PS become available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officials	Date of Joining on Steno Grade 'A&B' (merged)(PS)
1	2	3
	(S./Shri/Smt./Ms.)	
1.	A. K. Samanta	12.05.2011
2.	O. P. Narula	12.05.2011
3.	Shashi Sahni	12.05.2011
4.	Satish Kumar	12.05.2011
5.	Indu Kochar	12.05.2011
6.	P. Kasinadha Rao	12.05.2011
7.	Jagbir Singh	16.05.2011
8.	Chanakya Kelkar	12.05.2011
9.	Chander Shekhar Chhabra	12.05.2011
10.	Manju Rakesh	12.05.2011

1	2	3
	(S./Shri/Smt./Ms.)	
11.	Veena Bajaj	12.05.2011
12.	Sudha Sharma	12.05.2011
13.	Mukesh Kumar	12.05.2011
14.	Nafe Singh	12.05.2011
15.	S. K. Sachdeva	12.05.2011
16.	Rakesh Kumar	12.05.2011
17.	Jasoda	12.05.2011
18.	Kiran Lakra	12.05.2011
19.	Rose Minz	12.05.2011

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade of Private Secretary (PS) of CSSS.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

New Delhi, the 27th May 2011

No. A-35011/1/2011-Ad.-ED—The President is pleased to appoint the following Assistant Directors (Grade-I) the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance to the post of Deputy Director of Enforcement in the Grade Pay of Rs. 7,600/- in PB-4 (Rs. 15,600—39,100/-), on promotion with effect from the date mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Joining
1.	Shri M. G. Attri	11.04.2011
2.	Shri I. M. Bhatia	11.04.2011
3.	Shri R. K. Dubey	11.04.2011

A. C. MALLICK, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 23rd May 2011

No. A-12011/05/2010-Admn.-II—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 16.05.2011, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries of the CSSS Cadre as Principal Private Secretary in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (G.P.) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad hoc basis w.e.f. the date(s) mentioned against

their name for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier :—

Sl. No. of the officer	Name of the officer	Ministry/Department where they were working	Date of appointment as PPS in Department of Economic Affairs
1.	Indira Rani Behl	I&B	06.05.2011 (F.N.)
2.	Nisha Arora	I&B	06.05.2011 (F.N.)

2. The promotion of the abovementioned officers is purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the post of PPS.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 25th May 2011

No. A-12011/05/2010-Admn.-II—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II dated 29.03.2011 and 25.04.2011 and Department of Expenditure (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 02.05.2011 and 04.05.2011, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries of the CSSS Cadre as Principal Private Secretary in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (G.P.) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad hoc basis w.e.f. the date(s) mentioned against their name for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier :—

Sl. No. of the officer	Name of the officer	Ministry/Department where they were working	Date of appointment as PPS in Department of Economic Affairs
1.	Sarla Tahiliani	DoP&T	11.04.2011 (F.N.)
2.	Yogesh Sharma	Department of Economic Affairs	16.05.2011 (F.N.)

2. The promotion of the above mentioned officers is purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the post of PPS.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 23rd May 2011

No. A-19012/13/2006-DRT—On acceptance of his resignation, Shri Rakesh Kumar Mathur, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Jaipur, has demitted the charge of the post of Presiding Officer w.e.f. 5th May, 2011 (A.N.).

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 6th May 2011

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Shri Karam Chand, PS of the CSSS cadre of the Ministry of Home Affairs as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the forenoon of 11th April, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Karam Chand is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

S. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Ms. Geeta Dhawan, PS of the CSSS cadre of the Ministry of Home Affairs as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the afternoon of 13th April, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Ms. Geeta Dhawan is purely on ad hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

3. Ms. Geeta Dhawan is posted in the Ministry of Textiles w.e.f. the afternoon of 13th April, 2011.

S. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Shri Dhan Singh Bharati, PS of the CSSS cadre of the Ministry of Defence as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the forenoon of 21st April, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Dhan Singh Bharati is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

S. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Ms. Achla, PS of the CSSS cadre of the Ministry of Home Affairs as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the forenoon of 11th April, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Ms. Achla is purely on ad hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

3. Ms. Achla is posted in the DGFT w.e.f. the forenoon of 11th April, 2011.

S. K. SHARMA, Under Secy.

The 11th May 2011

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 25th April, 2011, the President is pleased to appoint Shri Hari Ram Sharma, PS of the CSSS cadre of the Department of Commerce (Supply Division) as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the forenoon of 27th April, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Hari Ram Sharma is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

S. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Shri Sudhir Arora, PS of the CSSS cadre of the Ministry of Health & Family Welfare as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the forenoon of 29th April, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Sudhir Arora is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

S. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29th March, 2011, the President

is pleased to appoint Shri Pal Singh, PS of the CSSS cadre of the Ministry of Information & Broadcasting as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the forenoon of 27th April, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Pal Singh is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

3. Shri Pal Singh is posted in the DGFT w.e.f. the forenoon of 27th April, 2011.

S. K. SHARMA, Under Secy.

The 18th May 2011

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Shri Shailendra Bahuguna, PS of the CSSS cadre of the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the forenoon of 3rd May, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Shailendra Bahuguna is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

S. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Rattan, PS of the CSSS cadre of the Ministry of Science & Technology as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the forenoon of 10th May, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Anil Kumar Rattan is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

3. Shri Anil Kumar Rattan, PPS is posted in DGFT w.e.f. the afternoon of 10th May, 2011.

S. K. SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi-110107, the 20th May 2011

No. A-22012/1/2011-E.I.—In pursuance of the orders of the Department of Personnel and Training vide their OM No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29.3.2011, the President is pleased to appoint the following regular Stenographers Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of the Central Secretariat Stenographers Service cadre as Principal Private Secretary in the cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the scale of Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-, on ad hoc basis, for the period upto 30.9.2011 or till the date of their superannuation from Government Service or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, with effect from the dates indicated against their names :—

Sl. No.	Sl. No. in DOPT list	Name	Posting	Date of Promotion as PPS (ad hoc)
		Shri/Smt./Kum.		
1.	40	R. Nirmala	M/o FPI	05.5.2011 (FN)
2.	101	Ved Prakash	DIPP	29.3.2011 (FN)
3.	144	Harbhajan Kaur Gill	DPE	13.4.2011 (FN)
4.	195	R. K. Bajaj	TC	29.3.2011 (FN)
5.	197	Vijay Kumar	DHI	29.3.2011 (FN)
6.	297	M. P. Jain	DHI	29.3.2011 (FN)
7.	300	R. C. Sharma	DHI	29.3.2011 (FN)
8.	321	Suresh Kumar Nair	M/o FPI	29.3.2011 (FN)
9.	391	S. Hariharan	DIPP	07.4.2011 (FN)

2. The promotion of the officers to the grade of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer any right on the officers to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Principal Private Secretary.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 23rd May 2011

No. A-12023/1/2009-E.I.—The President is pleased to extend the tenure of Shri Ashish Batra, IPS (JH:97) as Officer on Special Duty to the Minister of Commerce & Industry (Shri Anand Sharma) for a period from 30.3.2011 to 30.6.2011 at the Deputy Secretary level (PB-3, in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/-) and from 1.7.2011 to 30.3.2013 at Director level (PB-4, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/-) or on co-terminus basis or till he ceases to function as Officer on Special Duty to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 28th April 2011

No. A.32011/4/2005-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No.s 6/5/2010-CS-I(S) dated 30.8.2010 and 6/9/2010-CS.I(S) dated 11.11.2010 and 7.4.2011, the President is pleased to extend the ad hoc appointment of the following Assistants borne on the Cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas, as Section Officer in this Ministry in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- for the period mentioned against each or till regular Section Officers become available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Period extended upto
1.	Shri Ashok Kumar	30.06.2011
2.	Shri Surender Kumar	30.06.2011
3.	Smt. Promila Shukla	30.06.2011
4.	Shri H. B. Singh	30.06.2011
5.	Shri Tikam Singh	30.06.2011
6.	Shri Basant Kumar	30.06.2011
7.	Shri Ramesh Chand	30.06.2011
8.	Shri Ratnakar Yadav	30.06.2011
9.	Shri S. U. Ansari	30.06.2011
10.	Shri K. P. Shah	30.06.2011

2. The appointment of above officers to the post of Section Officer is purely ad hoc in nature and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the post of Section Officer of CSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 23rd May 2011

No. A-19011/3/2011-Estt.—The President is pleased to promote Shri Pawan Gupta, Under Secretary as Deputy Secretary on regular basis in the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 7,600/-) w.e.f. the afternoon of 16th May, 2011 consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010.

R. K. KUREEL, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 23rd May 2011

No. A-12012/3/2011-Estt.—In pursuance of DOP&T's OM No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29.03.2011, the President is

pleased to appoint Shri Tilak Raj, a substantive Stenographer Grade 'A&B' (merged) (Private Secretary) of CSSS cadre of the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) to the post of Principal Private Secretary of the CSSS cadre of the Ministry of Coal, in the pay structure PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 13th May, 2011, until further orders.

2. The above appointment is being made purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade of PPS of CSSS. The Government reserves the right to terminate the above ad hoc appointment at any point of time without giving any reason thereof.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 6th May 2011

No. P.I/475/2010-Estt.—The President is pleased to permit Shri J. N. Basumatary, CSS, Deputy Secretary in the Ministry of Mines to voluntarily retire from Government Service with effect from the 1st May, 2011 (F.N.), under the provision of FR 56 (K)(1) & (1-A) (a).

NEETA GUPTA, Under Secy.

The 18th May 2011

No. 3/11/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Madan Lal as Deputy Secretary in the Ministry of Mines w.e.f. the forenoon of 13.5.2011.

NEETA GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 5th May 2011

No. 2(15)/2003-Estt.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated March 18, 2010, the President is pleased to extend the ad hoc appointment of Sh. B. D. Ghosh, Joint Industrial Advisor as Additional Industrial Advisor in the Ministry of Steel for a period of six months with effect from March 18, 2011 or till further orders whichever is earlier.

The ad hoc appointment will not confer any right to claim regularization of the same or claim seniority in the grade for any purpose. Government reserves the right to terminate Sh. B. D. Ghosh's ad hoc appointment without assigning any reasons or giving notice.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

The 6th May 2011

No. 2(7)/2009-Estt.—Consequent upon his promotion on ad hoc basis vide Department of Personnel & Training's

O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Shri Rajender Vaid, a regular PS of the CSSS in Ministry of Defence as Principal Private Secretary (ad hoc) in Ministry of Steel in the scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from the afternoon of 29th April, 2011 for a period upto 30.09.2011 or till regular PPS becomes available or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) It shall not confer any right to continue in the post indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

The 9th May 2011

No. 2(12)/2010-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List Year 2010 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/12/2010-CS.II(A) dated 14th February, 2011, Shri R. K. Mahajan, Senior PPS (ad hoc), Ministry of Steel is appointed as Senior Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Steel in Pay Band-3 with Grade Pay Rs. 7,600/- w.e.f. 14th February, 2011.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi-110011, the 20th May 2011

No. A.45011/13/2005-Admn.—In terms of Section 5(1) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, and supersession of earlier Notifications and amendments issued on the subject matter, Shri Shashank Goel, Joint Secretary, Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises is hereby designated as Appellate Authority under the RTI Act in respect of the Department as a whole, until further orders, vice Shri Ambuj Sharma Joint Secretary :—

1. APPELLATE AUTHORITY

Shri Shashank Goel

Joint Secretary

Tel. No. 23062207

E-mail I.D.: shashank.goel@nic.in

Address : Room No. 174, Udyog Bhavan,

Rafi Marg, New Delhi-11.

L. C. RAM, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 25th May 2011

No. I-13011/2/2011-O&M—In terms of Directives issued by Central Information Commission, vide CIC/AT/D/10/000111 dated 15.11.2010 under Section 19 (8)(a) of RTI Act, 2005, for time bound implementation of Section 4 obligations under the Act, Director (Cooperation) in the Department is designated as the Transparency Officer for the Department of Consumer Affairs, Government of India.

PRADEEP M. LAL, Dir.

New Delhi, the 25th May 2011

No. A-11011/6/2007-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No.3/1/2011-CS.II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Shri Rana Das, a regular Private Secretary (SL 1996) of CSSS Cadre in the Ministry of Culture as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs. 6,600/- on purely ad hoc basis with effect from the forenoon of 23rd May, 2011 to 30.9.2011 or till regular PPSs become available or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

OM PRAKASH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 24th May 2011

No. A-12022/1/2009-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar, a regular Under Secretary (CSS) in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) as Deputy Secretary in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution) w.e.f. the forenoon of 12th May, 2011.

SANJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 27th July 2010

No. 22012/88/1999-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian

Forest Service on the basis of Select List of 1993-94 and allocate them to Jammu & Kashmir cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
1.	Shri Ashok Kumar Gupta	01.07.1949
2.	Shri Asghar Inayatullah	15.04.1952

2. This is in pursuance of Supreme Court directives dated 26.2.07 in CA No. 6660/2000 filed by Shri Vijay Singh Charak Vs. UoI.

3. The abovementioned appointments are subject to the outcome of LPA No. 284/2009, CMP No. 419/2009, SWP No. 1009/2010 and CMP No. 1420.2010 in the High Court of Jammu & Kahsmir at Srinagar.

C. M. SHARMA, Under Secy.

The 27th July 2010

No. 22012/88/1999-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service on the basis of Select List of 1999 and allocate them to Jammu & Kashmir cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
1.	Shri V. K. Raina	20.12.1952
2.	Shri S. K. Kohli	24.08.1957
3.	Shri Farooq Ahmed Gilani	18.04.1961
4.	Shri Javed Iqbal Panjoo	01.10.1958

2. This is in pursuance of Supreme Court directives dated 26.2.07 in CA No. 6660/2000 filed by Shri Vijay Singh Charak Vs. UoI.

3. The above mentioned appointments are subject to the outcome of LPA No. 284/2009, CMP No. 419/2009, SWP No. 1009/2010 and CMP No. 1420/2010 in the High Court of Jammu & Kahsmir at Srinagar.

C. M. SHARMA, Under Secy.

No. 22012/88/1999-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub regulation (1)

of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service on the basis of Select List of 1990 and allocate them to Jammu & Kashmir cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Shamim Mohd Khan	20.12.1951
2.	Peer Bashir Ahmad Qadri	18.11.1944
3.	Subash Chander	30.04.1952
4.	Suraj Prakash Sharma	13.10.1956
5.	Harinder Singh Salathia	27.04.1954
6.	Upinder Pachnanda	25.09.1955
7.	AB Qayoom Khan	10.02.1952
8.	Mohd Shafiq Khan	17.05.1953
9.	Manuraj Singh	20.07.1954
10.	Lalit Kr Sharma	25.02.1955
11.	Manzoor Ahmad	11.04.1953
12.	Mohd Hussain	10.03.1954
13.	Hafizullah Siddiqui	18.05.1953
14.	Mahesh Chander	18.05.1956
15.	Arun Kumar	14.11.1956

2. This is in pursuance of Supreme Court directive dated 26.2.07 in CA No. 6660/2000 filed by Shri Vijay Singh Charak Vs. UoI.

3. The above mentioned appointments are subject to the outcome of LPA No. 284/2009, CMP No. 419/2009, SWP No. 1009/2010 and CMP No. 1420.2010 in the High Court of Jammu & Kashmir at Srinagar.

C. M. SHARMA, Under Secy.

No. 22012/88/1999-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service on the basis of Select List of 1996-97 and allocate them to Jammu & Kashmir cadre of Indian Forest

Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Nissar Ahmad Darzi	27.04.1958
2.	Nissar Hussain Hakim	01.10.1952
3.	B. L. Zadoo	10.11.1951
4.	M. A. Tak	15.07.1954
5.	R. S. Jasrotia	22.08.1956

2. This is in pursuance of Supreme Court directive dated 26.2.07 in CA No. 6660/2000 filed by Shri Vijay Singh Charak Vs. UoI.

3. The above mentioned appointments are subject to the outcome of LPA No. 284/2009, CMP No. 419/2009, SWP No. 1009/2010 and CMP No. 1420.2010 in the High Court of Jammu & Kashmir at Srinagar.

C. M. SHARMA, Under Secy.

No. 22012/88/1999-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service on the basis of Select List of 2000 and allocate them to Jammu & Kashmir cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Ashok Kumar Misra	12.09.1950
2.	A. G. Hajam	06.06.1959
3.	Narinder Singh	21.01.1953

2. This is in pursuance of Supreme Court directive dated 26.2.07 in CA No. 6660/2000 filed by Shri Vijay Singh Charak Vs. UoI.

3. The above mentioned appointments are subject to the outcome of LPA No. 284/2009, CMP No. 419/2009, SWP No. 1009/2010 and CMP No. 1420.2010 in the High Court of Jammu & Kashmir at Srinagar.

C. M. SHARMA, Under Secy.

No. 22012/88/1999-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest

Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service on the basis of Select List of 1986 and allocate them to Jammu & Kashmir cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Mohd Shafi	13.03.1932
2.	S. C. Sharma	28.09.1939

2. This is in pursuance of Supreme Court directive dated 26.2.07 in CA No. 6660/2000 filed by Shri Vijay Singh Charak Vs. UoI.

3. The above mentioned appointments are subject to the outcome of LPA No. 284/2009, CMP No. 419/2009, SWP No. 1009/2010 and CMP No. 1420.2010 in the High Court of Jammu & Kahsmir at Srinagar.

C. M. SHARMA, Under Secy.

No. 22012/88/1999-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, Shri Vijay Singh Charak (Date of Birth : 05.02.1954) of the State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service on the basis of Select List of 1991-92 and allocate him to Jammu & Kashmir cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966

2. This is in pursuance of Supreme Court directive dated 26.2.07 in CA No. 6660/2000 filed by Shri Vijay Singh Charak Vs. UoI.

3. The above mentioned appointments are subject to the outcome of LPA No. 284/2009, CMP No. 419/2009, SWP No. 1009/2010 and CMP No. 1420.2010 in the High Court of Jammu & Kahsmir at Srinagar.

C. M. SHARMA, Under Secy.

No. 22012/88/1999-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, Shri A. R. Lattoo (Date of

Birth : 31.03.1944) of the State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service on the basis of Select List of 1995-96 and allocate him to Jammu & Kashmir cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966

2. This is in pursuance of Supreme Court directive dated 26.2.07 in CA No. 6660/2000 filed by Shri Vijay Singh Charak Vs. UoI.

3. The above mentioned appointments are subject to the outcome of LPA No. 284/2009, CMP No. 419/2009, SWP No. 1009/2010 and CMP No. 1420.2010 in the High Court of Jammu & Kahsmir at Srinagar.

C. M. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110510, the 19th April 2011

No. 17013/24/2009-IFS-II—In exercise of provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Review Selection Committee of the Union Public Service Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service of Madhya Pradesh to the Indian Forest Service for the year 1977 in compliance with the orders of Hon'ble High Court of Madhya Pradesh dated 12.10.2004 in W.P. No. 2590/2003 and 11.04.2007 in C.P. No. 678/2006 in W.P. No. 2590/2003 containing the name of the following officer of the State Forest Service of Madhya Pradesh towards filling up of promotion quota vacancies available in Madhya Pradesh Cadre of the Indian Forest Service.

Name	Date of Birth
Shri Chaman Lal Ohri	28.09.1932

2. The Review Selection Committee has approved that his name may be included at S. No. 27A below the name of Shri S. V. Khemaria at Sl. No. 27 and above the name of Shri V. D. Tare at Sl. No. 28 in the Select List of 1977 for promotion to the Indian Forest Service of Madhya Pradesh Cadre.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th May 2011

No. A-12025/07/2011-CHS-IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bhawna Malhotra Singh to the post of Specialist Grade-II (Obst. & Gynae) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation with effect from the forenoon of the 8th April, 2011, until further orders.

O. P. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

New Delhi, the 23rd May 2011

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 30th May 2011

No. A-19011/15/2006-Admn.I—The President is pleased to appoint Ms. Swarn Mala Rawla, IAS (MP:80) as Additional Secretary in the HAG Scale of Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%)—79,000/- in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, on in situ basis w.e.f. the forenoon of 05.05.2011, by temporarily upgrading the post held by her, consequent upon approval of Appointments Committee of Cabinet vide their Reference Number 22/5/2011-EO (SM.I) dated 26th May, 2011.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 16th May 2011

No. 5-1/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/7/2011-EO(MM.I) dated 13th April, 2011, the President is pleased to appoint Ms. Lopamudra Mohanty, IP&TA&FS (1999) as Deputy Secretary in the Ministry of Women and Child Development for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier, with effect from the forenoon of 03.05.2011.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 19th May 2011

No. 11036/13/2009-PC&V—In partial modification of this Ministry's Notification No. 11036/09/2006-PC&V dated 1.7.2010, and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri R. Ramamurthy, Deputy Secretary is hereby designated as Central Public Information Officer in place of Shri Asit Gopal, Director in respect of subject allocated to him vide this Ministry's office order dated 1.7.2010 and the specific subject matters indicated against S. No. 10 of the above said notification.

2. Shri R. Ramamurthy's official address & Telephone No. is as under :—

Shri R. Ramamurthy
Deputy Secretary
Room No. 218, 'D' Wing,
Shastri Bhavan,
New Delhi-110115
(Telefax : 23383965)

3. The name of Shri Asit Gopal, Director, against S. No. 10 in the above said notification may be treated as deleted.

J. K. POPLI, Dir.

No. 12032/1/2009-Estt.—In pursuance of Ministry of Social Justice & Empowerment Office Order No. A.22014/01/2011-Estt.II dated 06.05.2011, the President is pleased to appoint Shri Raj Kumar as Principal Private Secretary in the Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 09.05.2011 (FN).

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 27th May 2011

No. 2(10)/2010-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following officers to the next higher grade as per the details given below w.e.f. 23.05.2011 (FN) :—

Sl. No.	Name of the officer	Present Post held	Promoted to the Post
1.	Shri Sidh Nath Singh	Administrative Officer-Grade I (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/-)	Deputy Director (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-)
2.	Shri Gautam Biswas	Administrative Officer-Grade I (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/-)	Deputy Director (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-)

S. RAMAKRISHNAN, Dy. I

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 9th March 2011

No. 3-1/2010-Admn.—Consequent upon inclusion in the Select List of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS for the Select List Year 2008 under the Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/25/2010-CS-II(A) dated 20.12.2010, the President is pleased to appoint Shri N. K. Bhasin, a regular Steno Grade 'C' of CSSS (working as PS on ad hoc basis) in the Department of Personnel & Training as Steno Grade 'A&B' (Merged) (PS) of CSSS in Department of Posts in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 25.02.2011 (A/N).

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

The 7th April 2011

No. 3-3/2011-Admn.—Consequent upon inclusion in the Senior Principal Private Secretary of CSSS for the Select List 2010 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/12/2010-CS-II(A) dated 14th February, 2011, the President is pleased to appoint Shri V. K. Tondon presently working as ad hoc Senior Principal Private Secretary of CSSS in Department of Posts on regular basis in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/-.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 26th May 2011

No. E(O)III-2011/RN/10—Consequent upon his permanent absorption in RVNL, Shri Vijay Anand, SAG/IRSE, has resigned from Railway service with effect from 08.04.2011 (AN).

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 23rd May 2011

No. A-19011/8/2009-Estt.—Smt. Jacinta Jose, Deputy Secretary (CSL No. 4109) in the Ministry of Shipping, will be retiring from Government service w.e.f. 31.5.2011 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 11th May 2011

No. A-19011/10/2005-E.I.—In continuation of this Ministry's notification No. A-19011/10/2005-E.I dated 10.03.2011 and in pursuance of Secretariat of Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 27/34/2010-EO (SM.I) dated 9th May, 2011, the President is pleased to extend the Central deputation tenure of Shri Saroj Kumar Dash, IAS (HP:80) as Joint Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways for a period of two months beyond 30.04.2011 or till a successor joins, whichever is earlier.

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 20th May 2011

No. 19/2011 (F.No. 1/1/2011-Adm.II)—The President is pleased to appoint Shri P. G. Kaladharan, Under Secretary, Department of Revenue (Ministry of Finance) as Officer on Special Duty to Hon'ble Minister of State for Power

(Shri K. C. Venugopal) at Under Secretary level for a period of three years with effect from 01.03.2011 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

No. 20/2011 (F.No. 2/8/2010-Adm.II)—In pursuance of the provisions contained in the Department of Personnel & Training's Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated the 9th May, 2011, the following Grade I (Under Secretaries) officers of CSS are appointed to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) in the Ministry of Power with effect from the dates mentioned against each in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-; Grade Pay Rs. 7,600/-) against the Select List year 2010 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Ministry where working/worked as Under Secretary	Date of appointment as Deputy Secretary in the Ministry of Power
1.	C. J. Jose	Minister of Power	09.05.2011
2.	K. L. Sharma	Ministry of Home Affairs	11.05.2011

2. The above promotion is subject to final orders in OA No. 1864/2009 filed before the Hon'ble CAT, Kolkata by Ms. Garima Singh Vs. Union of India and Ors. (since transferred to CAT, Principal Bench, New Delhi).

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 24th May 2011

No. 3/2011 (F. No. A-35018/1/2010-Adm.I)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 70 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the President is pleased to appoint Shri Kaushal Kishore Agrawal, Executive Director, Power Grid Corporation of India Limited, to the post of Member (Grid Operation & Distribution) in the Central Electricity Authority in the Scale of Pay of Rs. 67,000—79,000/- with the ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India, on deputation basis for a period of five years with effect from 03.05.2011, or till the date of superannuation, or until further orders, whichever is the earliest.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 20th May 2011

No. 148/2011 (F. No. 6/1/2007-Admn.II)—The President is pleased to appoint Shri Khurshid Ahmed Ganai, IAS

(JK:82) as Joint Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 16.05.2011 till the date of his superannuation i.e. upto 31.10.2015 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 12th May 2011

No. A-11019/1/2011-Admn.I—Consequent upon their nomination to the cadre of the Ministry of Urban Development on promotion as Principal Private Secretary (PPS) on CSSS on ad hoc basis vide Department of Personnel and Training's Order No. 3/1/2011-CS.II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint the following regular Steno Grade 'A&B' (merged) (Private Secretaries) of CSSS cadre of Ministries/Departments as indicated against their names, to the Post of Principal Private Secretary in the Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad hoc basis with effect from the date mentioned against each of them for period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Cadre to which belongs	Date of joining/ assumption the charge of the post of PPS
1.	Shri. Suresh Sharma	Union Public Service Commission	25.04.2011 (FN)
2.	Smt. Asha Nichani	Central Water Commission, M/o Water Resources	28.04.2011 (FN)
3.	Smt. Rajni Ahuja	DAVP, M/o Information & Broadcasting	29.04.2011 (FN)
4.	Smt. Kamini Bansal	Central Water Commission	03.05.2011 (FN)
5.	Smt. Asha Sharma	Central Electricity Board, M/o Power	04.05.2011 (FN)
6.	Smt. Poonam Pal	Environment & Forest	04.05.2011 (AN)
7.	Shri Avinash Chander Uppal	M/o Defence	05.05.2011 (FN)
8.	Shri Dharam Bir Singh	Central Water Commission, M/o Water Resources	05.05.2011 (AN)

2. The appointment of the above officers to the grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi-110001, the 12th May 2011

No. A-32014/1/2011-Admn.I—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants of CSSS as Private Secretaries of CSSS on ad hoc basis in the Ministry of Labour & Employment with effect from the dates mentioned against their names until further orders :—

Sl. No.	Name	Date on which assumed charge of PS on ad hoc basis
	Sh./Smt./Ms.	
1.	Valsamma J.	29.04.2011
2.	K. V. Sidharthan	21.04.2011
3.	Sangeeta Thukral	25.04.2011
4.	Rajni Puria	21.04.2011
5.	Amarjeet Singh	21.04.2011
6.	M. Seshu	25.04.2011
7.	H. C. Bhatheja	21.04.2011
8.	Indu Kholi	29.04.2011
9.	Raj Pal	21.04.2011
10.	Jaswinder Singh	21.04.2011
11.	Indu Sood	26.04.2011
12.	Sunita	25.04.2011
13.	K. Satheesan	21.04.2011
14.	S. Puttanna	28.04.2011

A. K. THAKUR, Under Secy.

No. A-32013/2/2011-Admn.I—The President is pleased to appoint the following Regular Private Secretaries of CSS as Principal Private Secretaries of CSSS on ad hoc basis in the Ministry of Labour & Employment with effect from the dates mentioned against their names until further orders :

Sl. No.	Name	Date on which assumed charge of PPS on ad hoc basis
	Sh./Smt./Ms.	
1.	Jai Singh	01.04.2011 (FN)
2.	Harminder Singh	01.04.2011 (FN)
3.	Radha Venkatraman	08.04.2011 (FN)
4.	Lata Dawar	08.04.2011 (FN)
5.	Bhuvaneshwar Singh	11.04.2011 (FN)
6.	B. S. Bhatia	27.04.2011 (AN)
7.	Manju Paikray	29.04.2011 (FN)
8.	Sarita Sharma	29.04.2011 (FN)
9.	Jagdish Lal	04.05.2011 (FN)

A. K. THAKUR, Under Secy.